



Teachingninja.in

DSSSB PRT 13 Nov 2019 Shift 1 Paper

- ★ Latest Govt Job updates
- ★ Private Job updates
- ★ Free Mock tests available

Visit - teachingninja.in



GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Test Center Name	Titiksha public school
Test Date	13/11/2019
Test Time	8:30 AM - 10:30 AM
Subject	ASSISTANT TEACHER PRIMARY

Section : Mental Ability

Q.1 L is the father of P. R is the sister of P. S is the only son of R. L and V have only one daughter. How is P related to S?

- Ans
- 1. Nephew
 - 2. Uncle
 - 3. Brother
 - 4. Father

Question ID : 71939922043

Q.2 A series is given with one term missing. Select the correct alternative from the given ones that will complete the series.

GPB, NGK, UXT, ?, IFL

- Ans
- 1. CMC
 - 2. BOC
 - 3. BND
 - 4. DND

Question ID : 71939922038

Q.3 In the following question, four letter pairs are given. The letters on left side of (–) is related to the letters on the right side of (–) with some Logic/Rule/Relation. Three are similar on basis of same Logic/Rule/Relation. Select the odd one out from the given alternatives.

- Ans
- 1. LN – JL
 - 2. OT – MR
 - 3. PQ – NS
 - 4. RA – PY

Question ID : 71939922039

Q.4 In the following question, select the related word pair from the given alternatives.

PEN : QDO :: ?

- Ans
- 1. BOM : APM
 - 2. JAP : KZQ

- 3. SIT : TJU
- 4. COP : BNO

Question ID : 71939922041

Q.5 In the following question, select the related words from the given alternatives.

Vehicle : Car :: Tool : ?

- Ans
- 1. Round
 - 2. Knife
 - 3. Cut
 - 4. Bike

Question ID : 71939922040

Q.6 A big solid cube is painted with red colour on two opposite faces, yellow colour on two adjacent faces and green colour on remaining two faces. Now 3 cuts are made on each axis of this cube and then some small cubes are obtained. How many small cubes will have one face painted with red colour and one face painted with yellow colour?

- Ans
- 1. 20
 - 2. 16
 - 3. 14
 - 4. 12

Question ID : 71939922055

Q.7 In the following question below are given some statements followed by some conclusions based on those statements. Taking the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. Read all the conclusions and then decide which of the given conclusion logically follows the given statements.

Statements:

- I. Some red are boys.
- II. All boys are small.

Conclusions:

- I. All boys are red.
- II. Some small are red.

- Ans
- 1. Only conclusion II follows
 - 2. Only conclusion I follows
 - 3. Both conclusion I and II follows
 - 4. Neither conclusion follows

Question ID : 71939922046



Q.8 Point R is 16 km towards the west of point J. Point T is 39 km towards the north of point J. Point J is 12 km towards the south of Point S. Point Q is 10 km towards the north of point R. If the point K is 144 km towards the west of point Q, then in which direction is point K from the point S?

- Ans
- 1. North east
 - 2. South west
 - 3. South east
 - 4. West

Q.9 Identify the diagram that best represents the relationship among the given classes.

Stool, Teacher, Furniture

Ans



Q.10 In the following question, select the odd figure from the given alternatives.

Ans



Q.11 In a certain code language, 'GON' is written as '33', 'PAD' is written as '18'. What is the code for 'TIR' in that code language?

Ans ✓ 1. 44

✗ 2. 45

✗ 3. 51

✗ 4. 46

Q.12 If $16R2T4 = 12$ and $35R7T2 = 7$, then $40R20T3 = ?$

- Ans
- 1. 4
 - 2. 10
 - 3. 6
 - 4. 5

Question ID : 71939922048

Q.13 A team of five members has to be formed out of 5 men : P, Q, R, S and T and 5 women : J, K, L, M and N. Following conditions should be kept in mind.

- (A) Minimum two women should be in the team.
- (B) S will not be in the same team with P.
- (C) T and Q will always be in the same team.
- (D) R will not be in the same team with J.
- (E) If K is selected, then M will also be selected.

Which of the following teams can be formed?

- I. TQRKM
- II. PRTQL
- III. JMKSQ
- IV. STQJN

- Ans
- 1. Both I and IV
 - 2. Both II and III
 - 3. Only I
 - 4. Only IV

Question ID : 71939922044

Q.14 In the following question below are given some statements followed by some conclusions based on those statements. Taking the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. Read all the conclusions and then decide which of the given conclusion logically follows the given statements.

Statements:

- I. No T is R.
- II. Some K are R.
- III. No T is J.

Conclusions:

- I. No K is J.
- II. Some J are not T.
- III. Some R are J.

- Ans
- 1. Only conclusion II follows
 - 2. Only conclusion I follows
 - 3. Both conclusion II and III follows
 - 4. Both conclusion I and II follows

Question ID : 71939922047

Q.15 If 'P' means '+', 'Q' means '÷', 'R' means '-' and 'S' means '×', then which of the following equation is true?

- Ans
- 1. $16S8Q4P19R23 = 27$
 - 2. $11P16Q23S112R14 = 71$
 - 3. $13Q182S42P16R4 = 15$
 - 4. $16P19Q57S12R11 = 7$

Question ID : 71939922049

Q.16 Arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary.

1. Arrogant
2. Arrogance
3. Aromatic
4. Aromation
5. Aromapheutic

- Ans
- 1. 54312
 - 2. 54321
 - 3. 53412
 - 4. 53421


Question ID : 71939922037

Q.17 Suman walks 36 km towards west. She turns left and walks 12 km. Now she turns right and walks 14 km. She again turns right and walks 12 km. She finally turns left and walks 11 km. How far and in which direction is she now from the initial point?

- Ans
- 1. 39 km, North west
 - 2. 39 km, West
 - 3. 61 km, West
 - 4. 61 km, North west

Question ID : 71939922052

Q.18 How many are male lawyers?



- Ans
- 1. 42
 - 2. 6
 - 3. 14
 - 4. 48


Question ID : 71939922051

Q.19 Ten boys B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 and B10 are sitting in a row facing towards north (not necessarily in the same order). Only four boys are towards the left of B9. B6 is fourth to the right of B9. No boys is towards the left of B2. B5 is to the immediate right of B3. B4 is not towards the right of B6 and not towards the left of B9. B1 is second to the left of B7. B7 is third to the right of B2. Only two boys are sitting towards the right of B5. If B5 is to the immediate left of B6, then how many boys are sitting between B10 and B8?

- Ans
- 1. 8
 - 2. 6
 - 3. 5
 - 4. 7

Question ID : 71939922045

Q.20 By folding the given paper, which of the following cube cannot be made?



I



II



III

- Ans
- 1. Both I and II
 - 2. Both II and III
 - 3. Only II
 - 4. Only III

Question ID : 71939922056

Section : General Awareness

Q.1 Dancing postures of the Chowk and the Tribhanga are associated with which classical dance form?

- Ans
- 1. Odissi
 - 2. kathakali
 - 3. Bharatnatyam
 - 4. Kuchipudi

Question ID : 71939922058

Q.2 Who was appointed as the Chairman of Association of World Election Bodies (AWEB) for the term 2019-21?

- Ans
- 1. V. S. Sampath
 - 2. Hari Shankar Brahma
 - 3. S. Y. Quraishi
 - 4. Sunil Arora

Question ID : 71939922070

Q.3 भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी शक्तियाँ राज्यसभा को दी गई हैं जिनका लाभ लोक सभा द्वारा नहीं उठाया जाता है?

I. यह संसद को केन्द्र एवं राज्य दोनों के लिए नयी अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है।

II. यह संसद को राज्यसूची में से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है।

- Ans
- 1. ना ही I ना ही II
 - 2. केवल II
 - 3. I तथा II दोनों
 - 4. केवल I

Question ID : 71939922074

Q.4 Capital of the kingdom of the Pallavas was _____.

- Ans
- 1. Mysore
 - 2. Madras
 - 3. Kanauj
 - 4. Kanchipuram

Question ID : 71939922067

Q.5 Which of the following element doesn't react with diluted hydrochloric acid even on heating but reacts with sulphuric acid?

- Ans
- 1. Sodium
 - 2. Iron
 - 3. Copper
 - 4. Magnesium

Question ID : 71939922061

Q.6 _____ is rich in soil nutrients, such as calcium carbonate, magnesium, potash and lime.

- Ans
- 1. Alluvial Soil
 - 2. Black Soil
 - 3. Laterite Soil
 - 4. Arid Soil

Question ID : 71939922066

Q.7 Ashvaghosha, a poet who composed a biography of the Buddha, the Buddhacharita, lived in the court of which ruler?

- Ans
- 1. Ashoka
 - 2. Bindusara
 - 3. Kanishka
 - 4. Gautamiputra Shri Satakarni

Question ID : 71939922069

Q.8 Who is the head of the committee that has been constituted by the Union Government

to oversee the bifurcation of Jammu and Kashmir (J&K) into Union Territories?

- Ans 1. Sanjay Mitra
 2. Ajit Doval
 3. Sunil Mehta
 4. Ram Madhav

Question ID : 71939922072

Q.9 2019 Asian Snooker Championship was won by_____.

- Ans 1. Yasin Merchant
 2. Lucky Vatnani
 3. Pankaj Advani
 4. Subhash Aggarwal

Question ID : 71939922076

Q.10 FIFA World Cup 2022 will be hosted by which country?

- Ans 1. Brazil
 2. Qatar
 3. Saudi Arabia
 4. France

Question ID : 71939922075

Q.11 "Bonalu" in which Goddess Mahakali is worshipped is celebrated in _____ .

- Ans 1. Odisha
 2. West Bengal
 3. Telangana
 4. Karnataka

Question ID : 71939922057

Q.12 _____ is present at the growing tips of stems and roots and increases their length.

- Ans 1. Xylem
 2. Lateral meristem
 3. Apical meristem
 4. Intercalary meristem

Question ID : 71939922062

Q.13 Which of the following project was launched by Khadi and Village Industries Commission (KVIC) to make carry bags by mixing processed and treated plastic waste with cotton fibre rags?

- Ans 1. RE-INVEST
 2. REUSE
 3. REPLACE
 4. REPLAN

Question ID : 71939922071

Q.14 The (fixed) interest rate at which the Reserve Bank provides overnight liquidity to banks against the collateral of government and other approved securities under the liquidity adjustment facility (LAF) is known as _____.

- Ans
- 1. Marginal rate
 - 2. Reverse repo rate
 - 3. Repo rate
 - 4. Bank rate

Question ID : 71939922059

Q.15 Which of the following statements regarding Brahmo Samaj is incorrect?

- Ans
- 1. It didn't believe in the Upanishads.
 - 2. It critically drew upon the ideals of religions Hinduism and Christianity.
 - 3. It forbade its members from criticising other religious practices.
 - 4. It prohibited all forms of idolatry and sacrifice.

Question ID : 71939922068

Q.16 Which of the following statements regarding ultrasound is correct?

I. Ultrasound is employed to break small 'stones' formed in the kidneys into fine grains.

II. In echocardiography technique, ultrasonic waves are made to reflect from various parts of the heart and form the image of the heart.

- Ans
- 1. Only II
 - 2. Only I
 - 3. Both I and II
 - 4. Neither I nor II

Question ID : 71939922063

Q.17 _____ is also responsible for maintenance and management of data on inward foreign direct investment into India based on the remittances reported by the Reserve Bank of India.

- Ans
- 1. NABARD
 - 2. SEBI
 - 3. RBI
 - 4. Department for Promotion of Industry and Internal Trade

Question ID : 71939922060

Q.18 Indira Sagar Dam is built on which river and in which state?

- Ans
- 1. Pench - Maharashtra
 - 2. Pench - Madhya Pradesh
 - 3. Narmada - Maharashtra
 - 4. Narmada - Madhya Pradesh

Question ID : 71939922065

Q.19 Which of the following rivers drains Chotanagpur Plateau?

- Ans
- 1. Damodar river
 - 2. Godavari river
 - 3. Brahmaputra river
 - 4. Chambal river

Question ID : 71939922064

Q.20 "Method of election of the President" provision has been borrowed by Indian constitution from _____.

- Ans
- 1. Irish Constitution
 - 2. USA Constitution
 - 3. Australian Constitution
 - 4. Canadian Constitution

Question ID : 71939922073

Section : Arithmetic Ability

Q.1 Volume of a cylinder is 4 times to the volume of a sphere. Their radius are equal. Sum of the radius and height of cylinder is 133 cm. What is the volume of sphere?

- Ans
- 1. 36572 cm³
 - 2. 40954 cm³
 - 3. 38808 cm³
 - 4. 35402 cm³

Question ID : 71939922092

Q.2 Compound interest received in the third year on a sum is Rs. 442. If the annual rate of interest is 15%, then how much compound interest will be received in the fourth year on the same sum? (Interest is compounded annually)

- Ans
- 1. 512.7
 - 2. 508.3
 - 3. 514.3
 - 4. 624.3

Question ID : 71939922088

Q.3 What will be the ratio of the Least Common Multiple and Highest Common Factor of the 10, 20 and 30?

- Ans
- 1. 8 : 1
 - 2. 6 : 1

3. 4 : 1

4. 2 : 1

Question ID : 71939922079

Q.4 Discount offered on selling a watch is Rs. 2016. If the marked price of this watch is Rs. 7200, then what is the discounted percentage?

Ans 1. 26 percent

2. 34 percent

3. 28 percent

4. 32 percent

Question ID : 71939922082

Q.5 If A is 14.28% less than B, then B is how much percentage more than A?

Ans 1. 12.5 percent

2. 20 percent

3. 16.66 percent

4. 25 percent

Question ID : 71939922083

Q.6 Two trains leave P and Q towards Q and P at same time. Speeds of train moving from P and Q is 25 km/hr and 30 km/hr respectively. When they meet then it is known that the train coming from Q has travelled 10 km distance more than train coming from P. What is the distance between P and Q?

Ans 1. 100 km

2. 110 km

3. 120 km

4. 90 km

Question ID : 71939922090

Q.7 Length of a rectangle PQRS is equal to the length of side AB of a triangle ABC. Height of triangle from base AB is 8 times to the breadth of rectangle PQRS. If the perimeter of rectangle is 100 cm and the area of a rectangle is 600 cm^2 , then what will be the area of triangle ABC?

Ans 1. 2400 cm^2


2. 3600 cm^2

3. 1200 cm^2

4. 4800 cm^2

Question ID : 71939922093

Q.8 The pie chart given below shows the number of eggs sold by a shopkeeper in different days. The number of eggs sold on particular day is shown as a percentage of total number of eggs sold on all days together.



If the total number of eggs sold are 1800, then what is the difference in number of eggs sold on day D6 and day D2?

- Ans
- 1. 252
 - 2. 246
 - 3. 250
 - 4. 242

Question ID : 71939922094

Q.9

If $A = (243)^{0.12} \times (243)^{0.08}$ and $B = \left(\frac{1}{216}\right)^{-2/3} \div \left(\frac{1}{27}\right)^{-4/3}$

then what is the value of B/A?

- Ans
- 1. 3/4
 - 2. 4/27
 - 3. 4/3
 - 4. 8/3

Question ID : 71939922080

Q.10 One-third of a certain journey is covered at the speed of 20 km/hr, one-fourth at the speed of 30 km/hr and the rest at the speed of 50 km/hr. what will be the average speed for the whole journey?

- Ans
- 1. 35 km/hr
 - 2. 30 km/hr
 - 3. 20 km/hr
 - 4. 25 km/hr

Question ID : 71939922089

Q.11 What is the greatest 5 digit number which when divided by 4 and 5 leaves remainder 3?

- Ans
- 1. 99928
 - 2. 99987
 - 3. 99983
 - 4. 99953


Question ID : 71939922081

Q.12 A is 30% of B. C is 45% of B. B is how much percentage less than (A + B + C)?

- Ans
- 1. 28.56 percent
 - 2. 42.86 percent
 - 3. 57.14 percent
 - 4. 32.56 percent

Question ID : 71939922084

Q.13 The line graph given below shows the number of trains departing from a station on different days of a week.



What is the ratio of the number of trains departing on day D5 to the total number of trains departing from the station on all 5 days?

- Ans
- 1. 33 : 10
 - 2. 10 : 43
 - 3. 43 : 10
 - 4. 10 : 33


Question ID : 71939922095

Q.14 If sum of two numbers is 15 and sum of their square is 113, then what is the product of two numbers?

- Ans
- 1. 56
 - 2. 112
 - 3. 50
 - 4. 28

Question ID : 71939922078

Q.15 The bar graph given below shows the number of toys sold by different shopkeeper on a particular day.



What is the average number of toys sold by first 3 shopkeepers on that day?

- Ans
- 1. 850
 - 2. 750
 - 3. 800
 - 4. 900

Question ID : 71939922096

Q.16 A and B together can complete $\frac{3}{5}$ part of a work in 18 days. If A alone can complete $\frac{1}{3}$ part of the same work in 25 days, then in how many days B alone can complete $\frac{4}{5}$ part of the same work?

- Ans
- 1. 35 days
 - 2. 40 days
 - 3. 60 days
 - 4. 48 days

Question ID : 71939922091

Q.17 P, Q and R are partners in a company. In any year P receives $\frac{1}{6}$ part of profit, Q receives $\frac{1}{5}$ part and R receives Rs. 38000. How much amount will P get as profit?

- Ans
- 1. Rs. 9000
 - 2. Rs. 10000
 - 3. Rs. 8000
 - 4. Rs. 6000

Question ID : 71939922086

Q.18 Containers I and II have milk and water in the ratio of 4 : 5 and 8 : 3 respectively. In what ratio Container I and Container II should be mixed to get a new mixture in which milk and water are in the ratio of 16 : 13?

- Ans
- 1. 12 : 25
 - 2. 23 : 11
 - 3. 28 : 13
 - 4. 18 : 11

Question ID : 71939922087

Q.19 What is the value of x : $\sqrt[3]{3x-8} - 4 = 0$?

- Ans
- 1. 24
 - 2. 12
 - 3. 36
 - 4. 7

Question ID : 71939922077

Q.20 A sold a table to B at a profit of 40%, B sold it to D at a profit of 60%. W sold a chair L to X at the loss of 20%, X sold it to P at a loss of 30% and finally P sold it to G at a loss of 50%. Price at which D bought the table from B and the Price at which P bought the chair from X is same. If the price at which W bought the chair is Rs. 600, then at what price D bought table?

- Ans
- 1. Rs. 336
 - 2. Rs. 396
 - 3. Rs. 219
 - 4. Rs. 348

Question ID : 71939922085

Section : General English

Q.1 In the given question, four words are given out of which one word is correctly spelt. Choose the correctly spelt word.

- Ans
- 1. Liaison
 - 2. Laison
 - 3. Liaision
 - 4. Liason

Question ID : 71939922107

Q.2 In the given question, four words are given out of which one word is incorrectly spelt. Choose the incorrectly spelt word.

- Ans
- 1. Library
 - 2. License
 - 3. Receive
 - 4. Liesure

Question ID : 71939922108

Q.3 Rearrange the parts of the sentence in correct order.

P: whirling round the sun
Q: rope was tied to them
R: it was as if a
S: and they kept

- Ans
- 1. PSQR

- 2. SRQP
- 3. RQPS
- 4. RQSP

Question ID : 71939922104

Q.4 A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative.

When are you _____ to write to your friend?

- Ans
- 1. goes
 - 2. going
 - 3. go
 - 4. gone

Question ID : 71939922101

Q.5 Improve the bracketed part of the sentence.

Don't lean against this wall, it (would) collapse.

- Ans
- 1. shall
 - 2. No improvement
 - 3. must
 - 4. might

Question ID : 71939922100

Q.6 In the following question, out of the given four alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the Idiom/Phrase.

On the hook

- Ans
- 1. In a bad condition and will not last long
 - 2. To be responsible for something
 - 3. Very rarely
 - 4. Being too happy

Question ID : 71939922110

Q.7 Rearrange the parts of the sentence in correct order.

P: for his behaviour
Q: he is clever
R: towards his parents
S: and has an explanation

- Ans
- 1. SRQP
 - 2. RSQP
 - 3. PRSQ
 - 4. QSPR

Question ID : 71939922103

Q.8 Choose the word that can substitute the given sentence.

One who is unable to pay his debts.

- Ans
- 1. brood
 - 2. caucus
 - 3. insolvent
 - 4. bale

Question ID : 71939922111

Q.9 Choose the word that is opposite in meaning to the given word.

Neglect

- Ans
- 1. Bitter
 - 2. Appreciate
 - 3. Foolish
 - 4. Scare

Question ID : 71939922106

Q.10 Choose the word that means the same as the given word.

Loyal

- Ans
- 1. Ban
 - 2. Permit
 - 3. Taboo
 - 4. Devoted

Question ID : 71939922105

Q.11 Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose 'No error'.

People always (1)/ admires a (2)/ courageous person (3)/ No error (4)

- Ans
- 1. 2
 - 2. 3
 - 3. 1
 - 4. 4

Question ID : 71939922098

Q.12 Improve the bracketed part of the sentence.

She kept us all (at) suspense regarding her future plans.

- Ans
- 1. No improvement
 - 2. in
 - 3. on
 - 4. with

Question ID : 71939922099

Q.13 A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose

the correct alternative.

This is the bicycle _____ chain is broken.

- Ans
- 1. that's
 - 2. whose
 - 3. who's
 - 4. that

Question ID : 71939922102

Q.14 In the following question, out of the given four alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the Idiom/Phrase.

Lion's share

- Ans
- 1. Totally unaware
 - 2. A major share
 - 3. Completely alone
 - 4. Done for material benefits

Question ID : 71939922109

Q.15 Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose 'No error'.

The young soldier (1)/ was brought (2)/ before a king (3)/ No error (4)

- Ans
- 1. 1
 - 2. 2
 - 3. 3
 - 4. 4

Question ID : 71939922097

Comprehension:

Read the following information carefully and answer the given questions.

Information and Communication Technology has a major impact on the on the world in which young people live. Similarly, E-learning has considerable potential to support traditional teaching approaches, which are well known.

A very good example of this potential is the fact that E-learning will assist the making of connections by enabling students to enter and explore new learning environment, overcoming barriers of distance and time. This has another advantage because it facilitates shared learning by enabling students to join or create communities of learners that extend well beyond the classroom. It further assists in the creation of supportive learning environment by offering resources that take account of individual, cultural or development differences. E-learning also enhances opportunities to learn by offering students virtual experiences and tools that save them time, allowing them to take their learning further. Thus, all educational institutions should explore not only how ICT can supplement traditional ways of teaching, but also how it can open up new and different ways of learning.

SubQuestion No : 16

Q.16 What is the major reason for the high potential of E-learning in supporting conventional teaching methods?

- Ans
- 1. It is facilitated by ICT, which young people understand.
 - 2. It enables students to create communities of learners.
 - 3. It gives more opportunities for students to learn.
 - 4. It creates a supportive learning environment.

Comprehension:

Read the following information carefully and answer the given questions.

Information and Communication Technology has a major impact on the on the world in which young people live. Similarly, E-learning has considerable potential to support traditional teaching approaches, which are well known.

A very good example of this potential is the fact that E-learning will assist the making of connections by enabling students to enter and explore new learning environment, overcoming barriers of distance and time. This has another advantage because it facilitates shared learning by enabling students to join or create communities of learners that extend well beyond the classroom. It further assists in the creation of supportive learning environment by offering resources that take account of individual, cultural or development differences. E-learning also enhances opportunities to learn by offering students virtual experiences and tools that save them time, allowing them to take their learning further. Thus, all educational institutions should explore not only how ICT can supplement traditional ways of teaching, but also how it can open up new and different ways of learning.

SubQuestion No : 17

Q.17 Which word from the passage is opposite in meaning to closure?

- Ans
- 1. Experiences
 - 2. Potential
 - 3. Considerable
 - 4. Enhances

Comprehension:

Read the following information carefully and answer the given questions.

Information and Communication Technology has a major impact on the on the world in which young people live. Similarly, E-learning has considerable potential to support traditional teaching approaches, which are well known.

A very good example of this potential is the fact that E-learning will assist the making of connections by enabling students to enter and explore new learning environment, overcoming barriers of distance and time. This has another advantage because it facilitates shared learning by enabling students to join or create communities of learners that extend well beyond the classroom. It further assists in the creation of supportive learning environment by offering resources that take account of individual, cultural or development differences. E-learning also enhances opportunities to learn by offering students virtual experiences and tools that save them time, allowing them to take their learning further. Thus, all educational institutions should explore not only how ICT can supplement traditional ways of teaching, but also how it can open up new and different ways of learning.

SubQuestion No : 18

Q.18 Which word from the passage means the same as overcoming?

- Ans
- 1. Surmount
 - 2. Forfeit
 - 3. Surrender
 - 4. Yield

Comprehension:

Read the following information carefully and answer the given questions.

Information and Communication Technology has a major impact on the on the world in which young people live. Similarly, E-learning has considerable potential to support traditional teaching approaches, which are well known.

A very good example of this potential is the fact that E-learning will assist the making of connections by enabling students to enter and explore new learning environment, overcoming barriers of distance and time. This has another advantage because it facilitates shared

learning by enabling students to join or create communities of learners that extend well beyond the classroom. It further assists in the creation of supportive learning environment by offering resources that take account of individual, cultural or development differences. E-learning also enhances opportunities to learn by offering students virtual experiences and tools that save them time, allowing them to take their learning further. Thus, all educational institutions should explore not only how ICT can supplement traditional ways of teaching, but also how it can open up new and different ways of learning.

SubQuestion No : 19

Q.19 What aspects of E-learning should schools and colleges explore?

- Ans
- 1. How it can help students understand learning software better
 - 2. How it can support traditional teaching methods
 - 3. How it can give rise to alternative learning systems
 - 4. How it can give rise to alternative learning systems and how it can support traditional teaching methods

Question ID : 71939922115

Comprehension:

Read the following information carefully and answer the given questions.

Information and Communication Technology has a major impact on the on the world in which young people live. Similarly, E-learning has considerable potential to support traditional teaching approaches, which are well known.

A very good example of this potential is the fact that E-learning will assist the making of connections by enabling students to enter and explore new learning environment, overcoming barriers of distance and time. This has another advantage because it facilitates shared learning by enabling students to join or create communities of learners that extend well beyond the classroom. It further assists in the creation of supportive learning environment by offering resources that take account of individual, cultural or development differences. E-learning also enhances opportunities to learn by offering students virtual experiences and tools that save them time, allowing them to take their learning further. Thus, all educational institutions should explore not only how ICT can supplement traditional ways of teaching, but also how it can open up new and different ways of learning.

SubQuestion No : 20

Q.20 Which of the following statements is true about E-learning?

- Ans
- 1. It takes care of person to person differences between students.
 - 2. It helps students contact other students in distant lands.
 - 3. It has considerable potential to support traditional teaching approaches.
 - 4. It gives more chances for students to learn, as it saves their time.

Question ID : 71939922113

Section : General Hindi

Q.1 दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए।

वहाँ सब प्रकार की _____ उपलब्ध हैं।

- Ans
- 1. वस्तुओं
 - 2. वस्तुएँ
 - 3. वस्तुओं
 - 4. वस्तु

Question ID : 71939922122

Q.2 दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए।

- Ans 1. पिकनिक की ओर चलने के लिए तैयार हो जाओ।
 2. पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हो जाओ।
 3. पिकनिक जाने के लिए तैयार हो जाओ।
 4. पिकनिक से चलने पर तैयार हो जाओ

Question ID : 71939922125

Q.3 दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए।

जग

- Ans 1. नर
 2. लोक
 3. मनुष्य
 4. अम्बा

Question ID : 71939922123

Q.4 दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए।

- Ans 1. बालिका दिनभर पढ़ती है।
 2. वह हमारे लिए चाय को बनाकर जाता है।
 3. उसे घूमना बहुत अधिक पसंद थी
 4. राम और सीता दोनों खेलने गई थी।

Question ID : 71939922128

Q.5 दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए।

कल्पांत

- Ans 1. कल्प + अन्त
 2. कल्प + आंत
 3. कल्पा + न्त
 4. कल्प + अंत

Question ID : 71939922118

Q.6 दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए।

भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी।

- Ans 1. वर्तमान काल
 2. अपूर्ण भूतकाल
 3. पूर्ण भूतकाल
 4. सामान्य भूतकाल

Question ID : 71939922126

Q.7 दिए गए वाक्य में से गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए।

कालीदास विद्वान व्यक्ति थे।

- Ans 1. थे

- 2. कालीदास
- 3. व्यक्ति
- 4. विद्वान

Question ID : 71939922119

Q.8 दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए।

तनी : तनि

- Ans
- 1. युवती : सूर्य
 - 2. थोड़ा : बंधन
 - 3. उसके बाद : तुम्हारा
 - 4. तराजू : लहर

Question ID : 71939922121

Q.9 दिए गए रिक्तस्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए।

इन्हें सही रास्ते पर लाना _____ है।

- Ans
- 1. दाना-पानी उठाना
 - 2. टेढ़ी खीर
 - 3. टूट पड़ना
 - 4. टका सा जवाब देना

Question ID : 71939922130

Q.10 दिए गए वाक्य की क्रिया ज्ञात कीजिए।

चुटकुला सुनकर बालक मुस्कुराया

- Ans
- 1. अकर्मक क्रिया
 - 2. प्रेरणार्थक क्रिया
 - 3. सकर्मक क्रिया
 - 4. संयुक्त क्रिया

Question ID : 71939922120

Q.11 निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द ज्ञात कीजिए।

- Ans
- 1. प्राण
 - 2. चीनी
 - 3. गिरगिट
 - 4. घी

Question ID : 71939922127

Q.12 दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए।

संक्षेप

- Ans
- 1. संकीर्ण
 - 2. विस्तार

2. १९९१

3. अक्षेप

4. विक्षेप

Question ID : 71939922124

Q.13 दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए।

‘दाल में काला होना’

- Ans
- 1. संदेह की बात होना
 - 2. परास्त करना
 - 3. बहुत आसान समझना
 - 4. खूब तरक्की करना

Question ID : 71939922131

Q.14 दिए गए विराम चिह्न में से अर्द्ध विराम चिह्न ज्ञात कीजिए।

- Ans
- 1. ()
 - 2. !
 - 3. ,
 - 4. ;

Question ID : 71939922132

Q.15 दिए गए वाक्य में किस विराम चिह्न का उपयोग किया जाएगा उनकी पहचान कीजिए।

यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी यह बहुत सस्ती है

- Ans
- 1. ; |
 - 2. - ,
 - 3. - |
 - 4. : !

Question ID : 71939922129

Comprehension:

एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्पों में से सही विकल्प चुने।

दीपावली पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व होता है। इस दिन भगवान श्रीराम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ चौदह वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्यावासियों ने दीये जलाकर उनका स्वागत किया था। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दशहरे के बाद से ही घरों में दीपावली की तैयारियां व्यापक स्तर पर शुरू हो जाती हैं, प्रत्येक समाज त्योहारों के माध्यम से अपनी खुशी को प्रकट करता है। दीपावली का त्योहार जीवन में खुशी प्रदान करता है। नया जीवन जीने का उत्साह प्रदान करता है। भारत देश में दीपावली का बहुत अधिक महत्त्व है। इस दिन को अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को बहुत ही सुंदर और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है।

SubQuestion No : 16

Q.16 दीपावली किस दिन मनाई जाती है?

- Ans
- 1. पूर्णिमा
 - 2. किसी भी दिन
 - 3. अमावस्या

Comprehension:

एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्पों में से सही विकल्प चुने।

दीपावली पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व होता है। इस दिन भगवान श्रीराम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ चौदह वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्यावासियों ने दीये जलाकर उनका स्वागत किया था। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दशहरे के बाद से ही घरों में दीपावली की तैयारियां व्यापक स्तर पर शुरू हो जाती हैं, प्रत्येक समाज त्योहारों के माध्यम से अपनी खुशी को प्रकट करता है। दीपावली का त्योहार जीवन में खुशी प्रदान करता है। नया जीवन जीने का उत्साह प्रदान करता है। भारत देश में दीपावली का बहुत अधिक महत्त्व है। इस दिन को अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को बहुत ही सुंदर और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है।

SubQuestion No : 17

Q.17 दीपावली सभी के जीवन में क्या प्रदान करती है?

- Ans
- 1. क्रोध
 - 2. दुःख
 - 3. खुशी
 - 4. लोभ

Comprehension:

एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्पों में से सही विकल्प चुने।

दीपावली पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व होता है। इस दिन भगवान श्रीराम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ चौदह वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्यावासियों ने दीये जलाकर उनका स्वागत किया था। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दशहरे के बाद से ही घरों में दीपावली की तैयारियां व्यापक स्तर पर शुरू हो जाती हैं, प्रत्येक समाज त्योहारों के माध्यम से अपनी खुशी को प्रकट करता है। दीपावली का त्योहार जीवन में खुशी प्रदान करता है। नया जीवन जीने का उत्साह प्रदान करता है। भारत देश में दीपावली का बहुत अधिक महत्त्व है। इस दिन को अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को बहुत ही सुंदर और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है।

SubQuestion No : 18

Q.18 दशहरे के बाद कौन-से त्योहार की तैयारियां शुरू हो जाती है?

- Ans
- 1. रक्षाबंधन
 - 2. होली
 - 3. छठ पूजा
 - 4. दीपावली

Comprehension:

एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्पों में से सही विकल्प चुने।

दीपावली पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व होता है। इस दिन भगवान श्रीराम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ चौदह वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्यावासियों ने दीये जलाकर उनका स्वागत किया था। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दशहरे के बाद से ही घरों में दीपावली की तैयारियां व्यापक स्तर पर शुरू हो जाती हैं, प्रत्येक समाज त्योहारों के माध्यम से अपनी खुशी को प्रकट करता है। दीपावली का त्योहार जीवन में खुशी प्रदान करता है। नया जीवन जीने का उत्साह प्रदान करता है।

है। भारत देश में दीपावली का बहुत अधिक महत्त्व है। इस दिन को अंधकार पर प्रकाश को विजय का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को बहुत ही सुंदर और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है।

SubQuestion No : 19

Q.19 उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा?

- Ans
- 1. नव वर्ष
 - 2. रक्षाबंधन
 - 3. दीपावली
 - 4. दशहरा

Question ID : 71939922138

Comprehension:

एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्पों में से सही विकल्प चुने।

दीपावली पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व होता है। इस दिन भगवान श्रीराम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ चौदह वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्यावासियों ने दीये जलाकर उनका स्वागत किया था। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दशहरे के बाद से ही घरों में दीपावली की तैयारियां व्यापक स्तर पर शुरू हो जाती हैं, प्रत्येक समाज त्योहारों के माध्यम से अपनी खुशी को प्रकट करता है। दीपावली का त्योहार जीवन में खुशी प्रदान करता है। नया जीवन जीने का उत्साह प्रदान करता है। भारत देश में दीपावली का बहुत अधिक महत्त्व है। इस दिन को अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को बहुत ही सुंदर और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है।

SubQuestion No : 20

Q.20 भगवान श्रीराम, सीता व लक्ष्मण के साथ कितने वर्ष बाद वनवास से अयोध्या लौटे थे?

- Ans
- 1. पाँच वर्ष
 - 2. चौदह वर्ष
 - 3. तीन वर्ष
 - 4. दो वर्ष

Question ID : 71939922135

Section : Discipline1

Q.1 Which of the following is correct order of curriculum development?

1. Evaluation of objectives
2. Formation of objectives
3. Implimenting teaching - learning experiences
4. Selection of teaching - learning experiences

- Ans
- 1. 2, 1, 3, 4
 - 2. 2, 4, 3, 1
 - 3. 2, 3, 4, 1
 - 4. 2, 1, 4, 3

Question ID : 71939922156

Q.2 The 74th amendment added municipalities in which part of Indian Constitution?

- Ans
- 1. IXA
 - 2. X

3. XIA

4. XII

Question ID : 71939922154

Q.3 Which sociologist defined religion as unified system of beliefs and practices related to sacred things?

Ans 1. Karl Marx

2. Talcott Parsons

3. Maclver and Page

4. Emile Durkheim

Question ID : 71939922157

Q.4 Which of the following are important points that should be considered while selecting any teaching - learning material?

- I. Age appropriate
- II. Level appropriate
- III. Availability
- IV. Creative use

Ans 1. I, III and IV

2. I, II, III and IV

3. I, II and III

4. II, III and IV

Question ID : 71939922144

Q.5 Which of the following can be defined as the process of giving rewards and punishment to the children?

Ans 1. Accompaniment

2. Reinforcement

3. Consolidation

4. Enhancement

Question ID : 71939922146

Q.6 Which of the following is/are type(s) of value?

- I. Moral
- II. Cultural
- III. Universal
- IV. Spiritual

Ans 1. I, II, III and IV

2. I, II and III

3. I, III and IV

4. II, III and IV

Question ID : 71939922148

Q.7 To live at one level, disregarding the total process of life invites _____.

Ans 1. Misery and destruction

- 2. Happiness and money
- 3. Great knowledge
- 4. Enlightenment

Question ID : 71939922158

Q.8 'Choice of challenge' is a characteristic of which of the following?

- Ans
- 1. Values
 - 2. Motivation
 - 3. Discipline
 - 4. Inclusive education

Question ID : 71939922147

Q.9 Which sociologist observed that the teaching process, teaching method and language makes a difference between oppressors and oppressed?

- Ans
- 1. Paulo Freire
 - 2. Talcott Parsons
 - 3. Karl Marx
 - 4. Pierre Bourdieu

Question ID : 71939922151

Q.10 Which sociologist laid emphasis on the role of education system in the preservation of society and culture?

- Ans
- 1. John Dewey
 - 2. Emile Durkheim
 - 3. Karl Marx
 - 4. Ivan Illich

Question ID : 71939922150

Q.11 A teacher should know the cross-cultural understanding of the community where the school is. This can be done through which of the following?

- I. Exploring about the diversity in community
- II. Avoiding bias and preconceptions

- Ans
- 1. Neither I nor II
 - 2. Both I and II
 - 3. Only I
 - 4. Only II

Question ID : 71939922152

Q.12 कार्ल जंग के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी की एक सामान्य विशेषता नहीं है?

- Ans
- 1. आसानी से शर्मिदा हो जाना
 - 2. नम्यता में कमी
 - 3. बीमारियों और व्यक्तिगत सामान की उपेक्षा

4. रिजर्व रहना

Question ID : 71939922142

Q.13 _____ is/are the collective conscience and unwritten constitution of any society.

- Ans
- 1. Values
 - 2. Both norms and values
 - 3. Roles
 - 4. Norms

Question ID : 71939922149

Q.14 Which of the following is/are ways to enhance motivation in children?

- I. Give children opportunities to evaluate their own accomplishment.
- II. Allow children ample time when working to allow for persistence.
- III. Playtime should be structured and organised.

- Ans
- 1. I, II and III
 - 2. Both I and III
 - 3. Both II and III
 - 4. Both I and II

Question ID : 71939922143

Q.15 Which of the following is NOT a function of School Management Committee as per Right to Education Act, 2009?

- Ans
- 1. Prepare school development plan
 - 2. Monitor utilisation of grants
 - 3. Monitor the working of school
 - 4. Encourage parents to punish their child

Question ID : 71939922153

Q.16 Which of the following are commonly identified skills in the teaching - learning process?

- I. Skill in putting question
- II. Skill in introducing the topic
- III. Skill in non - verbal cues
- IV. Skill in explanation

- Ans
- 1. I, III and IV
 - 2. I, II, III and IV
 - 3. I, II and III
 - 4. II, III and IV

Question ID : 71939922145

Q.17 Which of the following is not a part of six theories of knowledge and truth?

- Ans
- 1. The Coherence theory
 - 2. The Intuition theory
 - 3. The Revelation theory

✓ 4. The Dogmatic theory

Question ID : 71939922155

Q.18 निम्नलिखित में से कौन सी अपसारी चिंतन को उत्तेजित करने की एक विधि नहीं है?

- Ans
- 1. स्वतंत्र लेखन
 - 2. मन अंशांकन (माइंड केलिब्रटिंग) करना
 - 3. एक पत्रिका बनाना
 - 4. बुद्धिशीलता (ब्रेनस्टोरमिंग)

Question ID : 71939922141

Q.19 Which of the following is NOT one of the attitude of the effective teacher?

- Ans
- 1. Sensitive accepting diversity
 - 2. Fostering individualized instruction
 - 3. Encouraging creativity
 - 4. Passing and responsibility

Question ID : 71939922140

Q.20 Which of the following type of thinking is characterized by a predominance of actual objects and events and the absence of concepts and generalization?

- Ans
- 1. Deductive thinking
 - 2. Inductive thinking
 - 3. Concrete thinking
 - 4. Abstract thinking

Question ID : 71939922139

Section : Discipline2

Q.1 Demonstration method of teaching is a _____.

- Ans
- 1. learner centered method
 - 2. competency based method
 - 3. subject centered method
 - 4. teacher centered method

Question ID : 71939922167

Q.2 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इंडो-अर्गो परिवार से संबंधित है?

- I. हिंदी
- II. नेपाली
- III. असमिया
- IV. पंजाब

- Ans
- 1. I तथा IV दोनों
 - 2. I, II, III तथा IV
 - 3. I, II तथा III

4. I, III तथा IV

Question ID : 71939922177

Q.3 Which methods is/are used for examining Collaborative learning processes?

- I. Conversation analysis
- II. Statistical discourse analysis

- Ans
- 1. Only I
 - 2. Both I and II
 - 3. Neither I nor II
 - 4. Only II

Question ID : 71939922172

Q.4 Which physiologist worked on Classical Conditioning?

- Ans
- 1. B.F. Skinner
 - 2. Bandura
 - 3. Ivan Pavlov
 - 4. Piaget

Question ID : 71939922164

Q.5 Which of the following are the usefulness of competency based approach in teaching-learning process?

- I. It keeps the learner away from rote memorization.
- II. What students learn today cannot be forgotten tomorrow.
- III. Assessments of competencies are directly linked with the objectives of learning experience.

- Ans
- 1. I and II
 - 2. I and III
 - 3. I, II and III
 - 4. II and III

Question ID : 71939922166

Q.6 _____ intelligence according to Gardner helps individuals to recognize and make distinction about others' feelings, intentions and respond accordingly.

- Ans
- 1. Musical
 - 2. Inter-personal
 - 3. Intra-personal
 - 4. Linguistic

Question ID : 71939922169

Q.7 What is the role of a teacher in enhancing physical climate of the classroom?

- I. To encourage students for beautification of the classroom walls with paintings and activity charts.
- II. To ensure safe and secured conditions of the building in which the class functions.
- III. To encourage students to share different activities like cleaning, disposal of garbage etc. among themselves.

- Ans
- 1. I and II
 - 2. II and III
 - 3. I and III
 - 4. I, II and III

Question ID : 71939922173

Q.8 Modern education _____.

- I. is developing the interact.
- II. offers more and more theories and facts.

- Ans
- 1. Neither I nor II
 - 2. Only I
 - 3. Only II
 - 4. Both I and II

Question ID : 71939922159

Q.9 In which of the following areas of learning, does Co-operative approach have a positive effect?

- I. Academic achievement
- II. Collaborative behaviour
- III. Cross-cultural understanding
- IV. Relationship and attitudes towards disabled students

- Ans
- 1. II, III and IV
 - 2. I, III and IV
 - 3. I, II and III
 - 4. I, II, III and IV

Question ID : 71939922171

Q.10 Which of the following imitative behaviour is related to the responses of the model not to his/her behavioural characteristics per states?

- Ans
- 1. Modelling effect
 - 2. Dis-inhibitory effect
 - 3. Inhibitory effect
 - 4. Eliciting effect

Question ID : 71939922161

Q.11 On which of the following parameters, a teacher should measure the success of his/her lesson plan to encourage discovery learning among his/her students?

- I. Increase in relevance of questions asked by students.
- II. Conviction in students in challenging opinions of other students, teacher and textbooks.
- III. Frequency with which students ask question.

- Ans
- 1. I, II and III
 - 2. I and II
 - 3. I and III
 - 4. II and III

Question ID : 71939922163

Q.12 What is/are the roles of the teacher as a classroom manager?

I. Teacher has to plan meticulously the learning activities, provision of material and assessment strategies in advance.

II. The teacher has to ensure that every child in the class realize their right to participation and right to organization.

- Ans
- 1. Both I and II
 - 2. Neither I nor II
 - 3. Only II
 - 4. Only I

Question ID : 71939922174

Q.13 IDEAL model for problem solving was developed by _____.

- Ans
- 1. Bandura
 - 2. Ballord
 - 3. Bransford
 - 4. Lev Vygotsky

Question ID : 71939922168

Q.14 What are your roles as a teacher in the construction of knowledge of your students in the classroom?

I. Supporting cooperative and collaborative learning in the classroom.

II. Connecting the activities in the school with those outside the school.

III. Encouraging self-analysis and self-assessment of their learning progress.

- Ans
- 1. II and III
 - 2. Only III
 - 3. I, II and III
 - 4. I and II

Question ID : 71939922165

Q.15 Which of the following are the characteristics of the learning-centred education?

I. Teaching and assessing are interwoven.

II. Teacher and students evaluate learning together.

III. Emphasis is on generating better questions and learning from errors.

- Ans
- 1. I, II and III
 - 2. I and III
 - 3. II and III
 - 4. I and II

Question ID : 71939922170

Q.16 Which of the following can be called as the features of "language"?

I. Language remains completely same throughout one state in a country like India.

II. Language can reveal social identity of the speaker.

III. Our choice of words while we speak shows which place we belong to.

- Ans
- 1. I and II
 - 2. I, II and III
 - 3. I and III
 - 4. II and III

Question ID : 71939922176

Q.17 Mathematization is regarded as constituting the higher aims of mathematics and it includes _____.

- I. Visualization
- II. Optimisation
- III. representation

- Ans
- 1. II and III
 - 2. I and III
 - 3. I, II and III
 - 4. I and II

Question ID : 71939922178

Q.18 In a classroom, for teaching various parts of a plant, a teacher instructs each student to bring a sample of plant from home to the class. Later, she divides the students into small group of five students and asks them to draw figures of the plant and label them. By doing so, which of the following benefits is she expecting?

- I. Developing social qualities like helping, sharing and accepting responsibility.
- II. Pooling combined resources for successful completion of the task.

- Ans
- 1. Neither I nor II
 - 2. Only II
 - 3. Both I and II
 - 4. Only I

Question ID : 71939922162

Q.19 To determine the readiness of children to learn, the teacher needs to have some knowledge of children's _____.

- I. Emotional development
- II. Intellectual development

- Ans
- 1. Only II
 - 2. Both I and II
 - 3. Only I
 - 4. Neither I nor II

Question ID : 71939922160

Q.20 The dictionaries and grammars derive their value from _____.

- Ans
- 1. the price of the book
 - 2. human behaviour
 - 3. environment
 - 4. speech community

Section : Discipline3

Q.1 "After understanding the topic of fractions, a student asks a few questions from his/her teacher." The above statement indicates which sequential phase of 5 E's learning model?

- Ans
- 1. Exploration
 - 2. Evaluation
 - 3. Elaboration
 - 4. Explanation

Question ID : 71939922179

Q.2 Choose the word that can substitute the given sentence.

Absence of government

- Ans
- 1. theocracy
 - 2. plutocracy
 - 3. apostate
 - 4. anarchy

Question ID : 71939922192

Q.3 Which of the following Kohlberg's stage of moral development works best in two-person relationships with family members or close friends, where one can make a real effort to get to know the other's feelings and needs and try to help?

- Ans
- 1. Universal principles
 - 2. Good interpersonal relationships
 - 3. Social contract and individual rights
 - 4. Maintaining the social order

Question ID : 71939922196

Q.4 Which of the following is/are the examples of deductive method of teaching mathematics?

I. If we have to find the square of $(112)^2$, then we can use the method of $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

II. If we have to find the value of (C^{10}/C^2) , then we can use the law of indices i.e. $(a^m/a^n) = a^{m-n}$

- Ans
- 1. Only I
 - 2. Both I and II
 - 3. Neither I nor II
 - 4. Only II

Question ID : 71939922180

Q.5 Which of the following statement is correct about Mathematical thinking?

- I. Mathematical thinking consists of solving problem and posing problems.
- II. Mathematical thinking requires the skills of precise thinking and logical reasoning.

- Ans
- 1. Only II
 - 2. Neither I nor II
 - 3. Both I and II
 - 4. Only I

Question ID : 71939922183

Q.6 Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose 'No error'.

The greatest advancement (1)/ in modern technology is (2)/ the invention with computers (3)/ No error (4)

- Ans
- 1. 4
 - 2. 2
 - 3. 1
 - 4. 3

Question ID : 71939922188

Q.7 Choose the word that is opposite in meaning to the given word.

Harmony

- Ans
- 1. accord
 - 2. skill
 - 3. discord
 - 4. undo

Question ID : 71939922189

Q.8 Process of reflective thinking includes which of the following?

- I. Inventing
- II. Theory Building
- III. Generalizing

- Ans
- 1. I, II and III
 - 2. I and III
 - 3. II and III
 - 4. Only II

Question ID : 71939922182

Q.9 In practice, Skinner's follower often deal with species-specific behaviour as the topography of a _____.

- I. human being
- II. response

- Ans
- 1. Only I
 - 2. Both I and II
 - 3. Only II

4. Neither I nor II

Question ID : 71939922197

Q.10 By which of the following method of teaching mathematics, a teacher can help the children to apply the concept of profit and loss from the textbooks during marketing?

- I. Analytic method
- II. Project method

Ans 1. Only I
 2. Only II
 3. Both I and II
 4. Neither I nor II

Question ID : 71939922185

Q.11 A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative.

I _____ the teacher to excuse me.

Ans 1. ask
 2. told
 3. tell
 4. asked

Question ID : 71939922195

Q.12 _____ refers to the application of concepts, procedures and methods developed in mathematics to the objects of other discipline or at least of other fields of knowledge.

Ans 1. Mathematization
 2. Generalization
 3. Simplification
 4. Specialization

Question ID : 71939922187

Q.13 Which of the following examples can help the students in connecting their knowledge with the life outside the school?

- I. Going market with their parents and observing and participating in the way of buying and selling of goods and also understanding the approach of buyer and seller.
- II. A frog climbs 60 meters on a pole in a day and slides back 50 meters in a night. If the pole is 100 meters high, then how many days the frog will take to climb to the top of the pole?

Ans 1. Only I
 2. Neither I nor II
 3. Only II
 4. Both I and II

Question ID : 71939922186

Q.14 Choose the word that is opposite in meaning to the given word.

Expensive

- Ans 1. cheap
 2. costly
 3. dear
 4. plenty

Question ID : 71939922190

Q.15 What is socialization process?

- I. A process by which societies induce their members to behave in socially acceptable ways.
II. A process by which societies are induced by their members to behave in socially acceptable ways.

- Ans 1. Only I
 2. Only II
 3. Neither I nor II
 4. Both I and II

Question ID : 71939922198

Q.16 Which of the following is/are the instructional objectives of mathematics?

- I. To develop in the child the power of thinking and reasoning.
II. To perform computations with speed and accuracy.
III. To understand and get acquainted with different coins.

- Ans 1. I, II and III
 2. I and III
 3. Only II
 4. II and III

Question ID : 71939922181

Q.17 Which of the following is not a phase of 5 E's learning model?

- Ans 1. Evaluation phase
 2. Engagement phase
 3. Exploration phase
 4. Examination phase

Question ID : 71939922184

Q.18 Choose the word that means the same as the given word.

Modern

- Ans 1. obsolete
 2. worldly
 3. merry
 4. current

Question ID : 71939922191

Q.19 Choose the word that can substitute the given sentence.

A person who spends very little

- Ans
- 1. drey
 - 2. stoic
 - 3. miser
 - 4. claque

Question ID : 71939922193

Q.20 In the following question, out of the given four alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the Idiom/Phrase.

To take something to heart

- Ans
- 1. stand out of the way
 - 2. to be greatly affected by something
 - 3. assume responsibility for
 - 4. to reach a crises

Question ID : 71939922194

Section : Discipline4

Q.1 Which of the following is NOT one of the aspects of Socio - cultural environment?

- Ans
- 1. Norms
 - 2. Architecture
 - 3. Customs
 - 4. Traditions

Question ID : 71939922203

Q.2 What comes under 'writing at word-level' writing activity?

- I. Labels for pictures
- II. Word puzzles

- Ans
- 1. Only I
 - 2. Both I and II
 - 3. Neither I nor II
 - 4. Only II

Question ID : 71939922212

Q.3 Which of the following statements is/are true?

- I. Fill-in exercises can be used for vocabulary.
- II. Fill-in exercises do not require much active production of language.

- Ans
- 1. Only I
 - 2. Only II
 - 3. Neither I nor II
 - 4. Both I and II

Question ID : 71939922205

Q.4 Which of the following is NOT a learning objective in EVS to be considered while assessing?

- Ans
- 1. Give feed back.
 - 2. To know about evaluation skills.
 - 3. To understand children's analytical abilities.
 - 4. Use single variety of testing technique.

Question ID : 71939922202

Q.5 Which of the following statement(s) is/are correct regarding creative expression in EVS?

- I. Creativity enhances ability to manage change.
- II. Creative expressions can be very useful in developing the affective domain.
- III. Creativity stimulates learning.

- Ans
- 1. Both II and III
 - 2. Both I and II
 - 3. I, II and III
 - 4. Only I

Question ID : 71939922200

Q.6 'प्रसंग में भाषा की वैश्विक समझ को दिखाना' किस शीर्षक के अंतर्गत आता है?

- Ans
- 1. बोलना
 - 2. लिखना
 - 3. सुनना
 - 4. पढ़ना

Question ID : 71939922210

Q.7 निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक की भूमिका का हिस्सा नहीं है?

- I. संदर्श भूमिका
- II. प्रक्रियात्मक भूमिका

- Ans
- 1. केवल I
 - 2. ना ही I ना ही II
 - 3. केवल II
 - 4. I तथा II दोनों

Question ID : 71939922218

Q.8 Which of the following exercise can teacher give to her/his students to teach about living and non-living things in EVS?

- Ans
- 1. Ask the students to list living and non-living things that they see around them.
 - 2. Ask the students to memorize examples of living and non-living things from their textbooks.
 - 3. Ask the students to write about artificial and man-made things.

4. Ask the students to copy the example of living and non-living things from their textbooks.

Question ID : 71939922204

Q.9 What is stage 4 called in productive computer session?

- Ans 1. There is no stage 4 in productive computer session.
2. Before the computer/tablet/mobile session.
3. During the computer/tablet/mobile session.
4. After the computer/tablet/mobile session.

Question ID : 71939922217

Q.10 What do you mean by formulaic language?

- Ans 1. The type of English children learn in primary classes.
2. The type of English children produce in the early stages of language learning.
3. The type of English children learn while graduating.
4. The type of English children learn in their secondary classes.

Question ID : 71939922211

Q.11 Book reviews _____.

- Ans 1. give a sense of achievement.
2. show the pupils the new book and tell them what it's about.
3. help you to decide on the suitability of a book.
4. put the title of the new book on the notice board.

Question ID : 71939922206

Q.12 निम्नलिखित में से कौन सा कहानी वाली पुस्तक का उपयोग करने का एक कारण नहीं है?

- Ans 1. कहानियां कल्पना की कवायद करती हैं।
2. कहानियों वाली पुस्तक बच्चों की अधिगम रणनीतियों का विकास करती है।
3. कहानियां प्रेरक, चुनौतीपूर्ण और सुखद होती हैं।
4. कक्षा में कहानियाँ सुनना एक राजनीतिक अनुभव है।

Question ID : 71939922207

Q.13 मेटाकॉग्निटिव रणनीतियों में क्या शामिल है?

- I. पूर्ववलोकन
II. स्वयं सुधार

- Ans 1. I तथा II दोनों
2. ना ही I ना ही II
3. केवल II
4. केवल I

Question ID : 71939922213

Q.14 विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करने के लिए बच्चों को संकेत देना किस भूमिका का हिस्सा है?

- Ans 1. संवादात्मक भूमिका
 2. प्रभावी भूमिका
 3. प्रक्रियात्मक भूमिका
 4. व्यवहारिक भूमिका

Question ID : 71939922214

Q.15 Which of the following occasions can be decided to use the childrens' first language?

- I. Predicting what comes next in a story.
II. Discussing learning strategies.

- Ans 1. Neither I nor II
 2. Only II
 3. Both I and II
 4. Only I

Question ID : 71939922208

Q.16 Which of the following can be a learning objective in EVS lesson plan while teaching about living and non - living things?

- Ans 1. Students can draw the diagrams of living things.
 2. Students will differentiate between artificial and natural things.
 3. Students could tell the characteristics of living and non - living things.
 4. Students will be able to name all the non - living things.

Question ID : 71939922201

Q.17 What are the tips for effective classroom use of digital video?

- I. Familiarise yourself with the website/media etc.
II. Watch a sequence several times before showing it so you know when to pause.

- Ans 1. Both I and II
 2. Neither I nor II
 3. Only I
 4. Only II

Question ID : 71939922215

Q.18 Which story telling technique can be ignored?

- Ans 1. Encourage pupils to take part by giving them chances to repeat key vocabulary and phrases.
 2. Ask questions to involve the children.
 3. Making sound effects all the time.
 4. Commentate on the story where needed and relate it to the children.

Question ID : 71939922209

Q.19 How many reasons are behind the Erikson's theory being a stage theory?

- Ans 1. 4

- 2. 1
- 3. 3
- 4. 2

Question ID : 71939922199

Q.20 What are the certain ground rules that will to be negotiated with children to ensure an inclusive learning environment?

- I. Independent learning in pairs or groups requires co-operation, not competition.
- II. Children need to share materials so they all have access to the task.

- Ans
- 1. Only I
 - 2. Both I and II
 - 3. Neither I nor II
 - 4. Only II

Question ID : 71939922216

Section : Discipline5

Q.1 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में अधिगम संसाधन का एक प्रकार नहीं है?

- Ans
- 1. ग्राफ़
 - 2. प्लेस वैल्यू कार्ड
 - 3. चित्रावली
 - 4. समय - रेखा

Question ID : 71939922220

Q.2 Which of the following activities are involved in the interactive stage of pedagogical analysis?

- I. Giving feedback.
- II. Deciding on expected learner's responses.
- III. Deciding methods/approaches of stimulus presentation.

- Ans
- 1. I, II and III
 - 2. Both I and II
 - 3. Both I and III
 - 4. Both II and III

Question ID : 71939922235

Q.3 $\triangle ABC$ and $\triangle PQR$ are congruent to each other. If $AC = 12$ cm, then what will be value of PR ?

- Ans
- 1. 12 cm
 - 2. 15 cm
 - 3. 18 cm
 - 4. 10 cm

Question ID : 71939922226

Q.4 Which of the following methods used in discovery approach to teaching science is/are based on inductive thinking?

- I. Open discovery method
- II. Guided discovery method
- III. Deductive discovery method

- Ans
- 1. Only II
 - 2. Only III
 - 3. Both I and II
 - 4. Only I

Question ID : 71939922233

Q.5 Which of the following are related with "Prior negative experiences with mathematics"?

- I. Unfavourable school climate
- II. Lack of encouragement from parents and/or teachers
- III. Lack of positive role models
- IV. Ethnic and/or gender stereotypes

- Ans
- 1. I, II, III and IV
 - 2. II and III
 - 3. I, II and III
 - 4. II, III and IV

Question ID : 71939922227

Q.6 Which of the following combination is not correct?

- Ans
- 1. $(4x - 3) \times (2x) \rightarrow$ Multiplication of a monomial with a polynomial
 - 2. $(9x^2 - 15xy) \div 3x \rightarrow$ Division of polynomial by a monomial
 - 3. $2x \times 3y \rightarrow$ Multiplication of monomials
 - 4. $(5x) - (2x) \rightarrow$ Division of monomials

Question ID : 71939922230

Q.7 Which of the following is an academic discipline incorporating fields such as surveying, geographic information systems, hydrography and cartography?

- Ans
- 1. Areal Differentiation
 - 2. Human Geography
 - 3. Spatial Science
 - 4. Pedagogy

Question ID : 71939922223

Q.8 In which of the following way we can represent a data regarding the population of five different countries in a particular year?

- I. Table
- II. Bar graph
- III. Histogram
- IV. Pie chart

- Ans
- 1. I and III

- 2. II, III and IV
- 3. I and II
- 4. I, II, III and IV

Question ID : 71939922229

Q.9 According to National Curriculum Framework (NCF), 2005 which of the following statement(s) is/are correct regarding teaching History at the upper primary stage?

- I. At the upper primary stage, History must focus on developments in India.
- II. At the upper primary stage, History will take into account developments in different parts of India, with sections on events or developments in other parts of the world.
- III. At the upper primary stage, History will only take into account development in different parts of India.

- Ans**
- 1. Only I
 - 2. Only III
 - 3. Only II
 - 4. I, II and III

Question ID : 71939922221

Q.10 Which of the following is/are the characteristics of investigative science identified by a teacher in the science classroom?

- I. Pupils have to make their own decisions.
- II. No investigation will allow pupils to use every kind of investigational procedure.

- Ans**
- 1. Both I and II
 - 2. Only II
 - 3. Neither I nor II
 - 4. Only I

Question ID : 71939922234

Q.11 कक्षा में विज्ञान पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित है?

- Ans**
- 1. हेन्ड्स – ओन प्रयोग उपागम
 - 2. पूछताछ उपागम
 - 3. एक्सपोजिटरी ट्रांसमिशन उपागम
 - 4. डिस्कवरी उपागम

Question ID : 71939922232

Q.12 Which is essential for implementation of inclusive education?

- I. Teacher education
- II. School leadership

- Ans**
- 1. Only II
 - 2. Both I and II
 - 3. Only I
 - 4. Neither I nor II

Question ID : 71939922237

Q.13 Which of the following is a benefit of inclusion for students without S.E.N.?

- I. May serve as per tutors during interactional activities.
- II. To learn to communicate and deal effectively with wide range of individuals.
- III. Chance to learn about many human device professions.

- Ans
- 1. II and III
 - 2. I and III
 - 3. I, II and III
 - 4. I and II

Question ID : 71939922238

Q.14 Which of the following propertie(s) of circle is/are correct?

- I. Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. ABCD is cyclic quadrilateral as its vertices lie on the circle.
- II. The degree measure of an arc is equal to twice the measure of angle inscribed in the opposite arc.

- Ans
- 1. Only I
 - 2. Both I and II
 - 3. Neither I nor II
 - 4. Only II

Question ID : 71939922228

Q.15 Which of the following is/are the aspects of educational evaluation in teaching learning process?

- I. Content
- II. Learning objectives
- III. Learning activities
- IV. Evaluation procedures

- Ans
- 1. I, II and III
 - 2. II, III and IV
 - 3. I, II, III and IV
 - 4. I, III and IV

Question ID : 71939922236

Q.16 Which of the following statements regarding inductive reference method of teaching science in teaching-learning process are correct?

- I. In this method, knowledge is self-acquired and is transformed into wisdom.
- II. Learning by doing is a basis of this method.
- III. It develops the habit of keen observation boosting critical thinking in students.

- Ans
- 1. Both II and III
 - 2. Both I and II
 - 3. Both I and III
 - 4. I, II and III

Question ID : 71939922231

Q.17 Which of the following are purposes of assessment in social sciences at elementary level?

- I. Identify the individual needs and requirements.

- II. Improve teaching learning process.
III. Do away with the fear of assessment among children.
IV. Encourage children to learn individually.

- Ans
- 1. I, III and IV
 - 2. II, III and IV
 - 3. I, II, III and IV
 - 4. I, II and III

Question ID : 71939922224

Q.18 शब्दावली को समेकित करने से आपका क्या तात्पर्य है?

- I. बच्चों को स्वयं का चित्र शब्दकोश बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
II. नए शब्द जो जल्दी सीखे जाते हैं, उन्हें अवरोधन की सहायता के लिए नियमित रूप से पुनः प्रयोग करने की आवश्यकता होती है।

- Ans
- 1. I तथा II दोनों
 - 2. केवल II
 - 3. केवल I
 - 4. ना ही I ना ही II

Question ID : 71939922219

Q.19 Which of the following activity/activities can be given to the students to teach about 'cultural diversity in India'?

- I. Asking one student to read about cultural diversity in the class.
II. Asking the students to list different cultures of India and write their features.
III. Asking students to write about the different dimensions of cultures of India and prepare a chart on it.

- Ans
- 1. Only I
 - 2. I, II and III
 - 3. Both II and III
 - 4. Only III

Question ID : 71939922222

Q.20 An article is sold at a discount of 25%. If marked price of article is Rs. 6000, then what will be the selling price of article?

- Ans
- 1. Rs. 4200
 - 2. Rs. 5400
 - 3. Rs. 4500
 - 4. Rs. 4800

Question ID : 71939922225